



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 15.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा नहर में कूदी युवती को सकुशल निकाला गया

आज दिनांक 15.02.21 समय लगभग 10:30 बजे ढखेरवा चौकी थाना निघासन पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टांडा खरवहिया निवासी एक 26 वर्षीय युवती अपने घर वालों से मामूली विवाद के कारण ढखेरवा पुल के पास आत्महत्या करने हेतु शारदा नहर में कूद गयी हैं।

सूचना पर चौकी प्रभारी ढखेरवा, श्री लाल बहादुर मिश्रा द्वारा तत्काल मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुँचकर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से युवती को शारदा नहर से सकुशल निकाल कर उपचार हेतु सीएचसी रमिहा बेहड़ पर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा युवती को पूर्ण रूप से सुरक्षित व स्वस्थ बताया गया एवं युवती को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। खीरी पुलिस की तत्परता से की गई त्वरित कार्यवाही की स्थानीय लोगों द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है।

थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जपनद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों 1. रामबाबू पुत्र मनोहर 2. श्यामू पुत्र जवाहर लाल 3. अंकित पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 4. रोहित कुमार पुत्र राजाराम सर्व निवासीगण झसिया थाना व जनपद खीरी 5. विनू पुत्र मंगरेलाल नि० अकबरपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1590 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 53/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 8/21 धारा 363/366/504/376 भादवि व ¾ पाँक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त जयन्ती पुत्र राजेन्द्र नि० लोहिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा अ०सं० 1071/09 धारा 354 भादवि में वारंटी अभियुक्त नीरज पुत्र रामस्वरूप नि० सैदपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 138 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना तिकुनिया	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना कोतवाली सदर	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना गोला	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना खीरी	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना सिगांही	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना हैदराबाद	18 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	138 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार